



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7—फरवरी 13, 2009 (माघ 18, 1930)  
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2009 (MAGHA 18, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 23 जनवरी 2009

सं. ए-22012/1/2008-पीएमए--प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक श्री कमल के. दयानी, आई.ए.एस. (जी. जे. : 90) की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 30.04.2009 तक बढ़ाई जाती है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 जनवरी 2009

सं. ए-22012/01/2009-पीएमए--श्री पुलक चटर्जी, आई.ए.एस. (यू. पी. : 1974) को वाशिंगटन (यूएसए) में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 27 जनवरी, 2009 (अपराह्न) से प्रधान मंत्री कार्यालय सचिव का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2009

सं. आरएस 3/4(1)/2009/4-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निजी सचिव श्री अजीत कुमार वर्मा को 1 जनवरी, 2009 से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (अनंतिम) तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 मई 2008

सं. पी.एफ.-819-आर (2)/जीएन-6047/एएन-1/2008--निम्नलिखित अधिकारियों ने शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा अवधि

दिनांक 30 जुलाई 2008

सफलतापूर्वक पूरी कर ली है :--

1. श्री वी. के. भार्गव
2. श्रीमती सिम्मी मौदगल
3. सुश्री ललिता अय्यर
4. सुश्री मधु शर्मा
5. श्रीमती प्रमिला पंत
6. श्रीमती बेला राउत
7. श्रीमती निर्मला शर्मा
8. श्रीमती कुसुम रावत
9. श्रीमती रश्मि कपूर
10. श्रीमती लता बंसल
11. श्री गुरनाम सिंह

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. जी.एन.-5594 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पी.एफ.-1019-आर. (2)/जी.एन.-6048/ए.एन.-1/2008--  
श्रीमती सुनीता माधव ने निजी सचिव के ग्रेड में परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. जी.एन.-5623 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 13 जून 2008

सं. पी.एफ.-821-आर. (2)/जी.एन.-6069/ए.एन.-1/2008--  
श्रीमती उर्मिला शर्मा ने शोध/संदर्भ अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. जी.एन.-5595 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पी.एफ.-1195-आर. (2)/जी.एन.-6068/ए. एन.-1/2008--निम्नलिखित स्थानापन्न संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से स्थायी आधार पर संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किया जाता है :--

क्रम	नाम	स्थायीकरण के प्रभावी होने की तारीख
सं.		
1.	श्री राम कृष्ण शर्मा	20.04.2008
2.	श्री के. एन. वीजू	09.05.2008

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. जी.एन.-5638 और दिनांक 16 मई, 2006 की अधिसूचना सं. जी.एन.-5645 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पी.एफ.-221-आर. (2)/जी.एन.-6085/ए.एन.-1/2008--  
श्रीमती के. रंगमणि नरसिम्हन ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 मई, 2006 की अधिसूचना सं. जी.एन.-5651 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. पी.एफ.-38-आर. (3)/जी.एन.-6087/ए.एन.-1/2008--  
निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जुलाई, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

क्रम	नाम	पदनाम
सं.		
1.	श्री आर. के. सक्सेना	निदेशक
2.	श्री रविन्दर कुमार	संयुक्त निदेशक (मुद्रण) ग्रेड-II
3.	श्रीमती किरण लता नंदवानी	अवर सचिव

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 1 सितम्बर 2008

सं. पी.एफ.-2-आर. (3)/जी.एन.-6097/ए.एन.-1/2008--श्री एम. राजगोपालन नायर, सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अगस्त, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 12 सितम्बर 2008

सं. पी.एफ.-220-आर. (2)/जी.एन.-6101/ए.एन.-1/2008--  
कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में श्री अशोक कुमार शर्मा की परीक्षा अवधि दिनांक 17.05.2008 से 16.01.2009 तक आठ महीने की अवधि के लिए बढ़ायी जाती है।

2. यह दिनांक 18 मई, 2006 की अधिसूचना सं. जी.एन.-5651 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 30 सितम्बर 2008

सं. पी.एफ.-119-आर. (3)/जी.एन.-6106/ए.एन.-1/2008--श्री ह. चैन, उप सचिव ग्रेड-II अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पी.एफ.-4-आर. (3)/जी.एन.-6105/ए.एन.-1/2008--लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत डॉ. (श्रीमती) पी. के. संघु, अपर सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 सितम्बर, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 23 अक्टूबर 2008

सं. पी.एफ.-1517-आर. (2)/जी.एन.-6114/ए.एन.-1/2008--श्री के. पी. खालियान, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) के निजी स्टाफ में अपर निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं, ने सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2006 की अधिसूचना सं. जी. एन.-5679 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पी.एफ.-1197-आर. (2)/जी.एन.-6113/ए.एन.-1/2008--श्री आई. ए.वी.एन.एस. मूर्ति, स्थानापन्न भाषांतरकार ग्रेड-II को 14 जून, 2008 से स्थायी आधार पर संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 जून, 2006 की अधिसूचना सं. जी. एन.-5671 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पी.एफ.-224-आर. (2)/जी.एन.-6112/ए.एन.-1/2008--निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटेक्शन अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है :-

1. श्री छेदा लाल
2. श्री हरपाल सिंह
3. श्री राजेन्द्र सिंह यादव

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2006 की अधिसूचना सं. जी. एन.-5675 और 5676 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 दिसम्बर 2008

सं. पी.एफ.-983-आर. (3)/जी.एन.-6126/ए.एन.-1/2008--श्री कांति प्रसाद गर्ग, संयुक्त निदेशक (पी.एस.एस.) ग्रेड-II, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 नवम्बर, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. लुइस मार्टिन, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 जनवरी 2009

सं. 4/(11)/आरसीसी/04---श्री सरताज सिंह छतवाल, सदस्य, लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2008 को त्यागपत्र दिये जाने के कारण रेल अभिसमय समिति में हुई रिक्ति को भरने के लिए श्री महेश कनोडीया, सदस्य, लोक सभा को 20 जनवरी, 2009 से सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त के संबंध में रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने हेतु रेल अभिसमय समिति (2004) का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है।

एन. के. पाण्डेय, उप सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2009

सं. ए-12025 (i)/1/2007-प्रशा.-1 (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर रुपये 37,400--67,000/- के वेतन बैंड + रुपये 8,700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 02 जनवरी, 2009 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय को अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में खरिदता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एल. आर. राव, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2009

सं. ए-32015/1/2005-प्रशा.-IV (वि. का.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 नवम्बर, 2008 के का. जा. सं. 5/12/2007-सीएस-II के अनुसार जोनिंग योजना अन्तर्गत, उनके केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड क और ख (विलयित) आशुलिपिकों की वर्ष 2005 की चयन सूची में समावेश के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित, तदर्थ आधार पर ग्रेड क और ख (विलयित) आशुलिपिक के रूप में कार्यरत, नियमित ग्रेड ग आशुलिपिकों को यथा नियमित ग्रेड क और ख (विलयित) आशुलिपिक पद पर रुपये 9,300--34,800/- के वेतन बैंड घ ग्रेड वेतन रुपये 4,800/- में दिनांक 15 जनवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं :-

क्रम	नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
सं.		
1	2	3
1.	श्री प्रदीप मुखर्जी	विधि कार्य विभाग शाखा सचिवालय, कोलकाता
2.	श्री एन. के. ग्रोवर	विधि कार्य विभाग केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग

1	2	3
3.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	विधि कार्य विभाग, प्रतिनियुक्ति आधार पर डी.आर.टी.-II, दिल्ली में
4.	सुश्री बिमला वर्मा	विधि कार्य विभाग
5.	श्री वी. आर. डी. नम्बूदरीपाद	विधायी विभाग
6.	श्री आर.वी.एस. भानुप्रसाद	विधायी विभाग
7.	सुश्री नीलम खत्री	विधि कार्य विभाग
8.	श्री मो. हुसैन	विधायी विभाग, प्रतिनियुक्ति आधार पर गोपनीय अधीक्षक
9.	श्री एस. के. चट्टराज	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, कोलकाता
10.	सुश्री वी. कलाई सेलवी (अनु. जाति)	विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, बंगलूरु
11.	श्री वीरेन्द्र कु. जाटव (अनु. जाति)	विधायी विभाग
12.	श्री महेश कुमार (अनु. जाति)	विधि कार्य विभाग

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2009

सं. ए-11019/1/2000-प्रशा.-III (वि. का.)--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उप धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अपील अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है :-

क्रम सं.	नाम और पदनाम
1.	श्री अहमद फरीद, लेखा सदस्य
2.	श्री डी. के. श्रीवास्तव, लेखा सदस्य
3.	श्री अरुण कुमार गरोड़िया, लेखा सदस्य
4.	श्री महावीर सिंह, न्यायायिक सदस्य
5.	श्री चन्द्र पुजारी, लेखा सदस्य

सी. ओ. राजन, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जनवरी 2009

सं. 14016/1/2008-यू.टी.एस.-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस

सेवा) नियमावली, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रारंभिक ग्रेड में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए 9,300/- 34,800/- (ग्रेड पे 4,800/-) रुपये के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रैंज संख्या	जन्म की तारीख
(सर्वश्री)			
1.	इन्द्र सिंह दहिया	डी-I/667	02.06.1951
2.	अत्तर सिंह	डी-I/668	14.08.1951
3.	वीरेन्द्र सिंह	डी-I/66	26.01.1953
4.	श्याम सुन्दर	डी-I/1003	01.04.1951
5.	सुरेन्द्र कुमार	डी-I/54	09.11.1951
6.	राजिन्दर सिंह	डी-I/928	02.11.1951
7.	धनवीर दत्त	डी-I/995	09.01.1952
8.	अशोक कुमार	डी-I/671	22.01.1952

2. दानिप्स के प्रारंभिक ग्रेड में उल्लिखित आठ निरीक्षकों की नियुक्ति सीडब्ल्यूपी सं. 4210/2007-जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा सीडब्ल्यूपी सं. 11356-62/2006-जे. के. जैन एवं और भारत संघ बनाम अन्य के परिणाम के अधधीन होगी।

3. तथापि, उक्त आदेश लागू करने से पहले दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उपर्युक्त निरीक्षक सतर्कता की दृष्टि से मुक्त है।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2009

सं. आई-18012/5/2006-आईपीएस-1--भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, हरियाणा संवर्ग को आबंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
(सर्वश्री)		
1.	सुभाष यादव	14.12.2001
2.	हरदीप सिंह दून	01.11.2003
3.	राजेन्द्र कुमार	01.11.2003

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2009

सं. ए-32013/5/2008-प्रशा.-I (जी)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2008-सी.एस.-I (डी) के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की वर्ष, 2005 की चयन सूची में उनके नामों को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों/पूर्व अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में दिनांक 01.07.2005 से तथा अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम अधिकारी का नाम

सं.

1. श्री मोहिन्दर कुमार, उप सचिव
2. श्री एस. जैनेन्द्र कुमार, उप सचिव
3. श्री रणवीर सिंह, उप सचिव (दिनांक 30.09.2008 को सेवानिवृत्त)

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2008

सं. 88 (फा. सं. ए-38012/2/2008-प्रशासन-1)--डॉ. चित्तरंजन, जो राजस्व विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में तैनात भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी थे, दिनांक 30.11.2008 (अपराह) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2008

सं. 89 (फा. सं. ए-19013/24/2005-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 25.11.2005 की अधिसूचना सं. 131 के क्रम में भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अधिकारी श्री मुरारी लाल मीणा की केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 17.10.2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 16.10.2009 (अपराह) तक बढ़ाया जाता है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. 90 (फा. सं. ए-19013/22/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री विजय कुमार जयसवाल, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 01) को

दिनांक 27.11.2008 (अपराह) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 91 (फा. सं. ए-19013/23/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री विजय बाबू वसंता, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 01) को दिनांक 27.11.2008 (अपराह) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 92 (फा. सं. ए-19013/24/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री मनीष सरीन, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 01) को दिनांक 27.11.2008 (अपराह) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 93 (फा. सं. ए-38013/17/2008-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री प्रेम कुमार छावड़ा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 नवम्बर, 2008 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 दिसम्बर 2008

सं. 94 (फा. सं. ए-19011/23/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के श्री पी. नागाराजन असारी की 01 दिसम्बर, 2008 (पूर्वाह) से तथा अगले आदेश तक रुपये 37,400/-67,000/- के संशोधित वेतन बैंड (पी.बी.-4) में 12,000/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 दिसम्बर 2008

सं. 95 (फा. सं. ए-19013/07/2008-प्रशासन-1)--इस विभाग की 2008 की अधिसूचना सं. 15 के अतिक्रमण में, राष्ट्रपति, श्री पी. एस. चौधरी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) को दिनांक 8.09.2008 (पूर्वाह) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में

नियुक्त करते हैं। इस विभाग द्वारा जारी की गई पूर्व अधिसूचना सं. 15/2008 को एतद्वारा वापिस ले लिया गया है तथा इसे रद्द कर दिया गया है।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 दिसम्बर 2008

सं. 96 (फा. सं. 50/127/2008 प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, वरिष्ठता कोटे के प्रति वर्ष 2003 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में नामों के सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप वर्तमान में राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में (तदर्थ आधार पर) कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को और के.स.से. के वित्त संवर्ग के नियमित सहायकों को राजस्व विभाग में उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	सहायक ग्रेड में चयन सूची वर्ष	नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की तारीख	टिप्पणी
(सर्वश्री/सुश्री)				
1.	संजय	1989	10.09.2008	
2.	अजय कुमार सिंह	1989	10.09.2008	
3.	पद्मनाम बेहरा	1989	10.09.2008	
4.	एस. पी. तिवारी	1989	10.09.2008	
5.	साग प्रसाद	1989	10.09.2008	
6.	जय सिंह	1989	10.09.2008	
7.	ए. के. चरई	1989	10.09.2008	
8.	धिवेकानन्द	1989	10.09.2008	
9.	आर. एम. एस. रुहिल	1989	10.09.2008	
10.	सूखे सिंह	1989	10.09.2008	
11.	आर. पी. शर्मा	1989	10.09.2008	
12.	डी. एस. शर्मा	1989	10.09.2008	
13.	सुबोध कुमार जैन	1989	15.09.2008	
14.	जे. सी. शर्मा	1990		सेवानिवृत्त 31.1.2008
15.	पी. के. छावड़ा	1990	10.09.2008	
16.	अनु गिल	1990	21.09.2008	
17.	रश्मा कृष्ण	1990	10.09.2008	
18.	राजीव कुमार	1990	10.09.2008	
19.	अविनाश चन्दा	1990	10.09.2008	
20.	पी. के. त्यागी	1990	10.09.2008	
21.	मानस मंडल	1990	10.09.2008	
22.	एस. के. सिंह	1990	08.10.2008	
23.	कं. टी. लेपचा	1990	10.09.2008	
24.	ए. के. शर्मा	1987		सेवानिवृत्त 30.09.2007
25.	सोमवीर सिंह	1990	29.10.2008	

2. ऊपर उल्लिखित 25 अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में अनुमोदित नियमित सेवा, केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली के अनुसार 01.07.2003 से गणना की जाएगी।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां श्री सौराशु सिन्हा द्वारा दायर मामला संख्या ओ. ए. 1083/2008 एवं एम. ए. सं. 1171/2007 जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण दिल्ली में लंबित है और कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर मामला सं. 13245-60/2005 जो उच्च न्यायालय दिल्ली में लंबित के परिणाम के अधधीन होंगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 दिसम्बर 2008

सं. 97 (फा. सं. ए-19011/24/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, श्री जी. मुधु रामाकृष्णन, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 72035) को दिनांक 15.12.2008 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 75,500--80,000/- रुपये के उच्च प्रशासनिक ग्रेड + वेतनमान में चैनई में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापनाएं

सं. 60/2008 (फा. सं. ए-38012/41/2008 प्रशा-II)--राष्ट्रपति, सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 48 (1) के अंतर्गत दिनांक 01.01.2009 (अपराह्न) से श्री एम. एन. महात्रे, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इंदौर की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

आर. सनेहवाल, उप सचिव

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2008

(भारतीय सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संस्थापना)

सं. 46/2008 (फा. सं. ए-38012/33/2008-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री अनूप स्वरूप (आई आर एस : सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद : 1985) सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जयपुर की सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस दिनांक 30.09.2008 (अपराह्न) से केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 72 के नियम 48-ए के अंतर्गत स्वीकार करते हैं।

अशोक चक्रवर्ती, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. 01/2009 (फा. सं. ए-38012/40/2008 प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48क के अंतर्गत

श्री उदय भानु सिंह, उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-II की दिनांक 09.01.2009 (पूर्वाह्न) से केन्द्र सरकार की सेवा से स्वैच्छिक निवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं।

एस. के. देब, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. ए-12011/2/2009-प्रशा.-2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 26.12.2008 के का. जा. सं.- 4/1/2007-सीएस-1 (डो) और दिनांक 7.1.2009 के का. जा. सं.-4/4/2008-सीएस-1(डो) के तहत परिचालित वर्ष 2003, 2004 व 2005 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के चयन ग्रेड (उप सचिव) की प्रवर सूची में उनके नाम सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में उनसे संबंधित चयन सूची के वर्ष 1 जुलाई से नियमित आधार पर जैसा कि प्रत्येक के सामने उल्लिखित है और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	सीएसएस सं.	चयन सूची का वर्ष	अनुमोदित सेवा की तिथि
1.	श्री बी. एस. रावत	2893	2003	01.07.2003
2.	श्री सागर मेहरा	3320	2005	01.07.2005

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन सूची में ऊपर उल्लिखित अधिकारियों की आंतरिक वरिष्ठता उनसे संबंधित चयन सूची में दिए गए क्रम संख्या के अनुसार होगी, चाहे उनकी उस ग्रेड में नियुक्ति की वास्तविक तिथि जो भी हों।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. 6/4/2008-फण्ड बैंक-II--राष्ट्रपति, श्री पुलक चटर्जी को वाशिंगटन डी. सी., संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विश्व बैंक के मुख्यालय में भारत, बंगलादेश, श्रीलंका और भूटान के कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राजदूत के रैंक में भारत सरकार के रेजीडेंट प्रतिनिधि के तौर पर नामजद करते हैं।

आलोक शील, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2009

सं. ए-19011/1/2009-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, सुरेन्द्र कुमार बागडे भा.प्र.से. (महाराष्ट्र : 93) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 19 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करते हैं।

एस. के. वर्मा, निदेशक

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2009

सं. ए-32013/1/2009-स्था.---केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्ति हेतु वर्ष 2004 एवं 2005 की चयन सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में नियमित आधार पर, उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से, उप सचिव (के. स. से. के चयन ग्रेड) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

नाम तथा पद नाम	प्रभावी तारीख
(i) श्री एम. के. मल्होत्रा, उप सचिव (चयन सूची 2004)	1.7.2004
(ii) श्री संजीव कुमार जिंदल, उप सचिव (चयन सूची 2005)	1.7.2005

बलराम, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जनवरी 2009

सं. 9/1/2009-प्रशा.--श्री राहुल खुल्लर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यूटी : 75) ने वित्त मंत्रालय (विनिवेश विभाग) में 19 जनवरी 2009 के अपराह्न से भारत सरकार के सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. 11 (14)/2005-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2008-सीएस-I (एस) के अनुसरण में श्री सुभाष चंद्र, सहायक के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ अवधि को दिनांक 30.6.2009 तक अथवा भर्ती के सामान्य चैनल के जरिए नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो पहले हो बढ़ाया जाता है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर होगी:--

इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए प्रवर सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, और

इस तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

सं. 11 (14)/2005-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2008-सीएस-I (एस) के अनुसरण में श्री एस. पी. त्यागी, सहायक के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ अवधि को दिनांक 30.6.2009 तक अथवा भर्ती के सामान्य

चैनल के जरिए नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो पहले बढ़ाया जाता है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर होगी:--

इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए प्रवर सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, और

इस तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

सं. 11 (14)/2005-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2008-सीएस-I (एस) के अनुसरण में श्रीमती अनुगधा शर्मा, सहायक के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ अवधि को दिनांक 30.6.2009 तक अथवा भर्ती के सामान्य चैनल के जरिए नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो पहले बढ़ाया जाता है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर होगी:--

इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति के लिए प्रवर सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, और

इस तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2009

सं. 4/14/2005-स्था.--वर्ष 2005 के वरिष्ठता कोटे में सीएसएसएस की आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) की प्रवरण सूची में श्री ए. के. जैन आशुलिपिक ग्रेड 'ग' का नाम शामिल किए जाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 नवम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/12/2007-सीएस-II द्वारा उन्हें खान मंत्रालय आवंटित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति ने, उनको खान मंत्रालय के संवर्ग में 7.1.2009 से सीएसएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त किया है।

प्रमोद चंद, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2009

सं. 14 (7)/99-केवीआई--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 जुलाई, 2008 के आदेश संख्या-13/3/2008-ई.ओ.

(एस.एम-II) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन महाराष्ट्र स्थित राष्ट्रीय संस्थान महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, मांगनवाड़ी, वर्धा, में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में (सरकार द्वारा स्वीकार्य छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमान 37,400--67,000 रुपये + 10,000/- रुपये ग्रेड पे (पी.बी.-4) डॉ. टी. करुणाकरण को एमगिरी, वर्धा में निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अर्थात् 15.07.2008 से 65 वर्ष की आयु अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो तक, नियुक्त करते हैं।

एम. के. मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2009

सं. ए-18011/45/2003-स्था.--राष्ट्रपति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के असंगठित क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोग में निदेशक श्री आशुतोष मिश्रा, आई.टी.एस. (89) की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 16.12.2008 से 31.03.2009 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

प्रताप सिंह वर्मा, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2009

सं. ए-12011/16/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग के नियमित सहायक निदेशक (सहकारिता) और स्थानापन्न रूप से उप निदेशक (सहकारिता) के पद पर कार्यरत श्री सुखदेव ठाकुर को दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रुपये (पी.बी.-3) के वेतन बैंड और 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में उप निदेशक (सहकारिता) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं।

एस. एल. वशिष्ठ, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2009

सं. ए-32012/1/2002-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2008-सीएस-I (एस) के अनुसरण में विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की तदर्थ नियुक्ति को उपभोक्ता मामले विभाग में 9,300--34,800/- रुपये (पी.बी.-3) के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 30.6.2009 की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, समय-समय पर



सूचित तदर्थ पदोन्नति की शर्तों और निबंधनों के अधीन आगे बढ़ाते हैं :--

क्रम सं.	सीएसएल सं.	नाम	चयन सूची वर्ष
1.	383/91	श्रीमती शैलेश कुमारी	12.10.2006
2.	202/92	श्रीमती जनक बाला सहगल	31.10.2008 (अपराह)
3.	91/93	श्री एस.एस. लूथरा	31.10.2008 (अपराह)
4.	41/94	श्रीमती आर. के. पुरी	22.12.2008

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 12 जनवरी 2009

सं. एस. एम./01/03/2008--राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर कार्य कर रहे निम्नलिखित अधिकारियों को उसी विभाग में निदेशक के उच्चतर वेतनमान 37,000--67,000 + ग्रेड पे रुपये 8,700/- रुपये में उनके नाम के सामने दी गई तिथि से अगले आदेशों तक सहर्ष स्थापित करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	स्थापन की तिथि
1.	श्री आर. ए. निर्विकार (अनु. जनजाति)	02.12.2008 (अपराह)
2.	श्री एस. बी. शर्मा	02.12.2008

बी. के. मंथन, डैस्क अधिकारी

दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. एसएम/01/06/2008--राष्ट्रपति भारतीय सर्वेक्षण विभाग में रुपये 37,400--67,400 + 8,700/- रुपये ग्रेड वेतनमान में निदेशक के पद पर तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में रुपये 37,400--67,400 + 10,000/- रुपये ग्रेड वेतन के वेतनमान में अपर महासर्वेक्षक के अधिसंख्य पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	मेजर जनरल एस. रवि	29.12.2008 (अपराह)
2.	मेजर जनरल जी. एस. चन्देला	29.12.2008
3.	मेजर जनरल एस. के. पाठक	29.12.2008
4.	मेजर जनरल बी. पी. श्रीवास्तवा	29.12.2008 (अपराह)

बी. के. मंथन, डैस्क अधिकारी

सं. एसएम/01/06/2008--राष्ट्रपति भारतीय सर्वेक्षण विभाग में रुपये 37,400--67,400 + 8,700/- रुपये ग्रेड वेतनमान में निदेशक के पद पर तैनात निम्नलिखित अधिकारी के सामने दी गई तारीख से अगले आदेशों तक विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में रुपये 37,400--67,400 + 10,000/- रुपये ग्रेड वेतन के वेतनमान में अपर महासर्वेक्षक के नियमित आधार पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
श्री पी. नागेन्द्र प्रसाद	29.12.2008

बी. के. मंथन, डैस्क अधिकारी

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

सं. ए-19011/22/2008-आईएफएस-I--राष्ट्रपति, एजीएमयूटी संवर्ग के भारतीय वन सेवा के 1978 बैच के अधिकारी श्री ए. के. वाहल को दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 की पूर्वाह्न से मार्च 2011 तक अथवा अधिवर्षिता तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान, देहरादून में प्रोफेसर, अपर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

कमल किशोर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जनवरी 2009

सं. 2-64/2001-एफ.ई--राष्ट्रपति, श्री निर्मल राम, वैज्ञानिक 'डी' को आई.सी.एफ.आर.ई. देहरादून में वैज्ञानिक 'ई' के रूप में पदोन्नति पर सुनम्य पूरक योजना के तहत 1.7.2008 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. पदोन्नति हुए श्री निर्मल राम द्वारा रिक्त किए गए 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान वाले वैज्ञानिक 'डी' के निम्न पद को वैज्ञानिक 'ई' के पद पर उनकी पदोन्नति की तारीख से समाप्त किया जाता है।

मालती रावत, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. ए-12025/16/2006-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. वी. राजशेखर को दिनांक 12 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (नेत्र विज्ञान) के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 20 जनवरी 2009

सं. ए-12025/28/2007-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) निरुपमा पणिकर खान को दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (विकृति विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

सं. ए-12025/19/2007-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) श्रुजन मोहनती को दिनांक 26 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

सं. ए-38011/1/2008-सी.एच.एस.-I--केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) के पद धारण करने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियमित संवर्ग/जीडीएमओ उपसंवर्ग के निम्नलिखित डाक्टर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने/या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के परिणामस्वरूप अपने नामों के सामने अंकित निम्न तारीखों को सेवानिवृत्त हो गए :-

क्रम सं.	डाक्टरों के नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख	संवर्ग
1.	डॉ. मुनीन्द्र गुप्ता	23.08.2007 (अंपराह)	जीडीएमओ
2.	डॉ. एस. उपाध्याय	31.03.2008	--तदैव--
3.	डॉ. जे. के. हांडा	31.01.2008	नियमित
4.	डा/ (सुश्री) सुचेता मल्होत्रा	31.07.2008	नियमित

माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2009

सं. ए-12025/2/2005-डी.एफ.क्यू.सी.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा की सिफारिशों पर डॉ. एन. मुरुगेसन, को जो तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता है और प्रभारी निदेशक, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई के पद पर फिलवक्त कार्यरत हैं, 24 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 8,000-275-13,500/- रुपये (संशोधन-पूर्व) के वेतनमान में + उक्त केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई में स्वीकृत भत्तों पर वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर तीन वर्षों की अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते हैं।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2009

सं. ए-32014/1/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.2.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/16/2007-सी.एस.-I (एस) के अनुसरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संवर्ग के सी.एस.एस. के निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से और दिनांक 31.12.2008 तक अथवा प्रवर सूची के व्यक्ति उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, 4,800/- रुपये के ग्रेड पे बैंड-2 में अनुभाग अधिकारी के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

1. श्री रंजीत कुमार सिंह (प्रवर सूची-1994) 4.12.2008 (पूर्वाह्न)
2. श्री धरम पाल अरोड़ा (प्रवर सूची-1994) 30.12.2008 (पूर्वाह्न)

2. यह इस शर्त पर है कि तदर्थ प्रोन्नति पूर्णतया अस्थायी है और अंतःकालीन व्यवस्था है तथा तदर्थ प्रोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु प्रवर सूची में शामिल होने या सी.एस.एस. के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

अरविंद कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहाकरिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2009

सं. ए-19012/14/2008-ई.ए.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आई ई एस) के कनिष्ठ समयमान (जे.टी.एस.) के एक अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह को रुपये 8,000-275-13,500/- के पूर्व संशोधित वेतनमान में 05 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहाकरिता विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2009

सं. 23024/1/2009-स्था.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 जनवरी, 2009 के का. ज्ञा. सं. 4/4/2008-सीएस-I (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित ग्रेड-I के अधिकारियों (अवर सचिव) को उनके नाम के सामने उल्लिखित वर्ष के लिए सीएसएस के चयन ग्रेड में (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम	अधिकारी का नाम	चयन सूची वर्ष सं.
1.	श्री आर. के. गाबा	2004
2.	श्री सी. एम. शर्मा	2004
3.	श्री वी. बी. दुबे	2005

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

## पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2009

सं. 2-1/2001-मा. प्रशा. --सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में 5,000-150-8,000/- रुपये (संशोधन पूर्व) वेतनमान में लेखाकार के 4 पदों को 5,000-150-8,000/- (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में वरिष्ठ स्टोर कीपर के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है। लेखाकार के 4 पदों को वरिष्ठ स्टोर कीपर के रूप में पुनः पदनामित करने के बाद, वरिष्ठ स्टोर कीपर की संस्वीकृत संख्या 06 होगी और लेखाकार की संस्वीकृत संख्या 08 होगी।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

## ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2008

सं. ए-22012/01/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.06.2008 के आदेश संख्या 5/1/2008-सी.एस.-I (डेस्क) तथा दिनांक 30.07.2008 के आदेश संख्या 5/5/2008-सी.एस.-I (डेस्क) के जरिए तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप, श्रीमती एलिस टेरे (सीएसएल संख्या एसएल/99) को दिनांक 21.8.2008 (पूर्वाह्न) से ग्रामीण विकास मंत्रालय में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करती है।

2. तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के अध्वधीन है।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 15 सितम्बर 2008

सं. ए-12022/7/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (एमटी : 87) के अधिकारी श्री जगदीश सिंह को दिनांक 09.09.2008 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों, इनमें से जो पहले हो, तक के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 18 सितम्बर 2008

सं. ए-12022/4/2008-स्थापना-I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वर्ष 2003 के वरिष्ठता कोटे में अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनके नामों को शामिल किए जाने के आधार पर 12 अगस्त, 2008 से 9,300-34,800 + 4,800/- रुपये (ग्रेड पे) के पे बैंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है :-

1. श्री मोहन सिंह
2. श्री के. डी. पांडेय

3. श्री सुरेन्द्र कुमार
4. श्री ए. एन. मिश्रा
5. श्री आर. आर. रणकोटी
6. श्रीमती चांद भाटिया
7. श्री बी. के. बहुगुणा
8. श्री बी. बी. सेठी
9. श्री अजीत कुमार

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

सं. ए-12022/4/2008-स्थापना-I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को वर्ष 2003 के वरिष्ठता कोटे में अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में उनके नामों को शामिल किए जाने के आधार पर 12 अगस्त, 2008 से 9,300-34,800 + 4,800/- रुपये (ग्रेड पे) के पे बैंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है :-

1. श्री आर. पी. सिंह
2. श्री आर. एस. कुदलेरिया
3. श्री चरण सिंह
4. श्री सी. पी. द्विवेदी

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 16 अक्टूबर 2008

सं. ए-22012/01/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री परसा राम (सीएसएल सं. 6292) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 सितम्बर, 2008 के आदेश सं. 5/1/2008-सीएसआई (यू) द्वारा तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 30 सितम्बर, 2008 के अपराह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में 6,600/- रुपये के ग्रेड पे के साथ 15,600-39,100/- रुपये के पे बैंड में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में यह नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के अध्वधीन है।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 27 अक्टूबर 2008

सं. ए-19011/2/2008-स्था.-I--राष्ट्रपति, डॉ. अरविंद मायाराम, भा.प्र.से. (राजस्थान-78) को दिनांक 20 अक्टूबर 2008 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 25 नवम्बर 2008

सं. ए-12026/01/2007-स्थापना-I--गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2007-रा. भा. (सेवा) के अनुपालन में तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्रीमती मंजू सक्सेना, संपादक (भागीरथ-हिन्दी) केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय को 12 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से 3 वर्ष की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (रा. भा.) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2009

सं. ए-12022/3/2008-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री सुधीर श्याम, आईईएस (99) को दिनांक 31.12.2008 के अपराह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी 2009

सं. 8-40/1999/डी (IV) एल/एल-II (भाग)--राष्ट्रपति, श्री देवी प्रसाद शास्त्री गरीमेल्ला को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में पूर्व संशोधित वेतनमान रुपये 12,000-420-18,300/- में 8 सितम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से रीडर व अनुसंधान अधिकारी (भाषा विज्ञान) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. पी. जे. जेराल्ड, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2008

सं. 4-15/2004-प्रशासन--अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अवर सचिव, श्री आई. एस. बलगौर दिनांक 31.12.2008 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

सं. 4-44/87-प्रशासन--अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री एस. के. गुप्ता दिनांक 31.12.2008 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

सं. 4-44/87-प्रशासन--अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्रीमती बिमला देवी दिनांक 31.12.2008 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. 1-23/2003-एसपीजी--सुश्री वी. टी. सेठ (भारतीय डाक सेवा-1975), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, गुजरात सर्किल, अहमदाबाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2008 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

स्मृति शरण, निदेशक (स्टाफ)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. ई (ओ) III.-2008/आर.एन./38--आंध्र प्रदेश सरकार में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री एन.वी. एस. रेड्डी, व.प्र.ग्रे./भा.रे.ले. से. ने 17.12.2008 से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

के. बी. एल. मित्तल  
सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 20 जनवरी 2009

सं. ईआरबी-I/2008/2/56--राष्ट्रपति जी, श्री प्रवीण कुमार, भा.रे.यां. ई.से., महाप्रबंधक/दक्षिण पश्चिम रेल को 01.01.2009 के पूर्वाह्न से 80,000/- रुपये (निर्धारित) के ग्रेड में सदस्य यांत्रिक/रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. बी. एल. मित्तल  
सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2008 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री धीरेन्द्र कुमार	- निदेशक (मुद्रण)
2.	श्री राजेन्द्र शर्मा	- अनुभाग अधिकारी
3.	श्री जगदीश चन्द्र	- अनुभाग अधिकारी
4.	श्री सुभाष चन्द्र	- अनुभाग अधिकारी

के. बी. एल. मित्तल  
सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-I/2007/10/4--श्री आर. के. राव, सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2008 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. बी. एल. मित्तल  
सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 22 जनवरी 2009

सं. ईआरबी-1/2008/2/48--राष्ट्रपति जी, श्री ए. के. तिवारी, उ.प्र.ग्रे./भा.रे.यां.इ.से., मु.यां.इ./चिरेका को 02.12.2008 के पूर्वाह्न से 24,050--26,000/- रुपये (संशोधन पूर्व) के ग्रेड में पदोन्नति पर अपर सदस्य (योजना)/रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. बी. एल. मित्तल  
सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2009

सं. ए-12011/1/2007-आई.डब्ल्यू.टी.--पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव और वित्त सलाहकार, श्री विजय छिब्र को श्री सी. बालकृष्णन, अपर सचिव और वित्त सलाहकार के स्थान पर अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए. सी. ओझा, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2009

सं. ए-12023/2/2004-ई-1--राष्ट्रपति, श्री एन. बालकृष्णन को दिनांक 01.05.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री उनकी सेवा लेना चाहें अथवा मंत्री द्वारा अपना पद छोड़ने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000--15,200/- रुपये (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में सह-अवसानी आधार पर माननीय मंत्री (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग) के निजी स्टाफ में अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. ए-32014/1/2005-ई-1 (बी)--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 05.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2007-सी.एस.-II के तहत सीएसएसएस के

आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) की 2005 की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सीएसएसएस की आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्रीमती संतोष धवन को 01.01.2009 (पूर्वाह्न) से 9,300--34,800/- रुपये के पे बैंड + 4,800/- रुपये के ग्रेड पे में नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2009

सं. 04/2009 फा. सं. 2/9/2007-प्रशा. दो--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में, कार्यालय ज्ञापन सं. 31/20/2008-ईओ (एम. एम.-I) दिनांक 05.09.2008 के निहित दिशानिर्देशों के तहत श्री कपिल मोहन, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 1990) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को, अपने का. ज्ञा.सं. 20/2/2007-ईओ (एम.एम.-01) दिनांक 16.01.2009 द्वारा, 20.06.2011 तक विस्तारित करने को अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, श्री कपिल मोहन की विद्युत मंत्रालय के अधिसूचना सं. 23/7 (मि.सं. 2/9/2007-प्रशा. दो, दिनांक 10.09.2007 के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्ति 20.06.2011 तक विस्तारित की जाती है।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2009

सं. ए-12025/5/2006-भ. सू. सेवा--महामहिम राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2007 के परिणाम के आधार पर श्री मिलिन्द धर्मराव रामटेके को भारतीय सूचना सेवा, समूह 'ए' के कनिष्ठ ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 01.01.2009 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती है।

2. श्री मिलिन्द धर्मराव रामटेके भारतीय सूचना सेवा, समूह 'ए' के कनिष्ठ ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे।

3. वे भारतीय सूचना सेवा, समूह 'ए' के कनिष्ठ ग्रेड के पद में सहायक निदेशक (मीडिया व संचार) के रूप में पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में अगले आदेश होने तक तैनात किए जाते हैं।

अमृत लाल, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 001, the 23rd January 2009

No. A-22012/01/2008-PMA—The Central Deputation tenure of Shri Kamal K. Dayani, IAS (GJ : 90) Director in the Prime Minister's Office is extended for a period until 30.04.2009

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 27th January 2009

No. A-22012/01/2009-PMA—Consequent upon his appointment as Executive Director, World Bank, Washington, USA, Shri Pulok Chatterji, IAS (UP : 1974) has relinquished the charge of the post of Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 27th January, 2009.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 22nd January 2009

No. RS/3/4(1)/2009/4-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ajit Kumar Varma, Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to officiate on regular basis in the grade of Senior Private Secretary in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay of Rs. 6,600/- (provisional) plus usual allowances admissible under the rules in that Secretariat with effect from 1st January, 2009 until further orders.

C. B. RAI, Director

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 13th May 2008

No. PF.819-R(2)/GN-6047/AN-I/2008—The following officers have satisfactorily completed the probation period in the grade of Research/Reference Officer:—

1. Shri V. K. Bhargava
2. Smt. Simmi Moudgil
3. Ms. Lalita Iyer
4. Ms. Madhu Sharma
5. Smt. Promila Pant
6. Smt. Bela Routh
7. Smt. Nirmala Sharma
8. Smt. Kusum Rawat
9. Smt. Rashmi Kapoor
10. Smt. Lata Bansal
11. Shri Gurnam Singh

2. This is in continuation of Notification No. GN-5594 dated 30th December, 2005.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.1019-R(2)/GN-6048/AN-I/2008—Smt. Sunita Maghav has satisfactorily completed the probation period in the grade of Private Secretary.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5623 dated 23rd February, 2006.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 30th July 2008

No. PF.221-R(2)/GN-6085/AN-I/2008—Smt. K. Rangamani Narasimhan has satisfactorily completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5651 dated 18th May, 2006.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 31st July 2008

No. PF.38-R(3)/GN-6087/AN-I/2008—On attaining the age of superannuation, the following Officers have retired from service with effect from the afternoon of 31st July 2008:—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sh. R. K. Saxena	Director
2.	Sh. Ravinder Kumar	Joint Director (Printing) Grade-II
3.	Smt. Kiran Lata Nandwani	Under Secretary

ABHIJIT KUMAR, Director

The 1st September 2008

No. PF.2-R(3)/GN-6097/AN-I/2008—On attaining the age of superannuation Shri M. Rajagopalan Nair, Secretary, has retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 12th September 2008

No. PF.220-R(2)/GN-6101/AN-I/2008—The probation period in respect of Shri Ashok Kumar Sharma in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer is extended for a period of eight months with effect from 17.05.2008 upto 16.01.2009.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5651 dated 18th May, 2006.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 30th September 2008

No. PF.119-R(3)/GN-6106/AN-I/2008—On attaining the age of superannuation Shri Har Chain, Deputy Secretary Grade-II, has retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.4-R(3)/GN-...../AN-I/2008—On attaining the age of superannuation Dr. (Smt.) Paramjeet Kaur Sandhu, Additional Secretary, has retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 23rd October 2008

No. PF.1517-R(2)/GN-6114/AN-I/2008—Shri K. P. Balyan who is presently on deputation in the personal staff of Minister for Social Justice & Empowerment (Smt. Meira Kumar) as Additional Private Secretary has satisfactorily completed the probation period in the grade of Security Officer.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5679 dated 22nd June, 2006.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.1197-R(2)/GN-6113/AN-I/2008—Shri I. A. V. N. S. Murthy, officiating Parliamentary Interpreter Grade-II is appointed as Parliamentary Interpreter Grade-II in a substantive capacity with effect from 14th June, 2008.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5671 dated 20th June, 2006.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.224-R(2)/GN-6112/AN-I/2008—The following officers have satisfactorily completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer.

1. Shri Chhada Lal
2. Shri Harpal Singh
3. Shri Rajender Singh Yadav

2. This is in continuation of Notification No.(s) GN-5675 and 5676 dated 22nd June, 2006.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 13th June 2008

No. PF.821-R(2)/GN-6069/AN-I/2008—Smt. Urmila Sharma, has satisfactorily completed the probation period in the grade of Research/Reference Officer.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5595 dated 30th December, 2005.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.1195-R(2)/GN-6068/AN-I/2008—The following officiating Parliamentary Interpreters Grade-II are appointed as Parliamentary Interpreter Grade-II in a substantive capacity with effect from the date mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Effective Date of confirmation
1.	Shri Ram Krishan Sharma	20.04.2008
2.	Shri K. N. Viju	09.05.2008

2. This is in continuation of Notification No(s). GN-5638 dated 20th April, 2006 and GN-5645 dated 16th May, 2006.

ABHIJIT KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 1st December 2008

No. PF.983-R(3)/GN-6126/AN-I/2008—On attaining the age of superannuation Shri Kanti Prasad Garg, Joint Director (PSS) Grade-II, has retired from service with effect from the afternoon of 30th November, 2008.

A. LOUIS MARTIN, Jt. Secy.

New Delhi-110001, the 22nd January 2009

No. 4/(ii)/RCC/04—Shri Mahesh Kumar Kanodia, Member, Lok Sabha has been nominated on 20th January, 2009 to serve as a Member of the Railway Convention Committee (2004) to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to the General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance vis-a-vis General Finance, in the vacancy caused by the resignation of Shri Sartaj Singh Chhatwal, Lok Sabha on 18 December, 2008.

N. K. PANDEY, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 22nd January 2009

No. A-12025(i)/2007-Admn.I/(L.D.)—The President is pleased to appoint Dr. (Ms). Mukulita Vijayawargiya, Deputy Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Grade II of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on adhoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 2nd January, 2009 and until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Dr. (Ms.) Mukulita Vijaywargiya any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) nor the ad-hoc services rendered by her will count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

L. R. RAO, Dy. Secy.

#### DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th January 2009

No. A-32015/1/2005-Admn.IV(LA)—Consequent upon their inclusion to the Select List for the year 2005 of Steno Grade 'A&B' (merged) of CSSS under zoning scheme vide Department of Personnel & Training O. M. No. 5/12/2007-CS. dated 5th November, 2008, the President is pleased to appoint the following regular Stenos Grade 'C' working as ad-hoc Steno Grade 'A&B' (merged) of CSSS cadre of this Department as Steno Grade 'A&B' (merged) on regular basis in the pay band PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- w.e.f. 15th January, 2009 (FN):—

Sl. No.	Name	Present Place of posting
1.	Sh. Prodip Mukherjee	Legal Affairs, Br. Sectt., Kolkata
2.	Sh. N. K. Grover	Legal Affairs, Central Agency Section
3.	Sh. Om Prakash Sharma	Legal Affairs, on depu. to DRT-II, Delhi
4.	Ms. Bimla Verma	Legal Affairs
5.	Sh. V. R. D. Namboodiripad	Legislative Deptt.
6.	Sh. R. V. S. Bhanuprasad	Legislative Deptt.
7.	Ms. Neelam Khatri	Legal Affairs
8.	Sh. Mohd. Hussain	Legislative Deptt., on deputation as Confid. Supdt.
9.	Sh. S. K. Chattaraj	Legal Affairs, Br. Sectt. Kolkata
10.	Ms. V. Kalai Selvi (SC)	Legal Affairs, Br. Sectt. Bangaluru
11.	Sh. V. K. Jatav (SC)	Legislative Deptt.
12.	Sh. Mahesh Kuamr (SC)	Legal Affairs

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 27th January 2009

No. A-11019/1/2000-Admn.III(LA)—In pursuance of sub-section (3) of Section 255 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorizes the

following Members of the Income Tax Appellate Tribunal for the purpose of the said sub-section with immediate effect:—

Sl. No.	Name and Designation
1	2
1.	Sh. Ahmed Fareed, Accountant Member
2.	Sh. D. K. Srivastava, Accountant Member
3.	Sh. Arun Kumar Garodia, Accountant Member
4.	Sh. Mahavir Singh, Judicial Member
5.	Sh. Chandra Poojari, Accountant Member

C. O. RAJAN, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 13th January 2009

No. 14016/1/2008-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- (Grade Pay Rs. 4,800/-) on probation for a period of two years with immediate effect:—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Inder Singh Dahiya	D-I/667	02.06.1951
2.	Attar Singh	D-I/668	14.08.1951
3.	Virender Singh	D-I/66	26.01.1953
4.	Shyam Sunder	D-I/1003	01.04.1951
5.	Surender Kumar	D-I/54	09.11.1951
6.	Rajinder Singh	D-I/928	02.11.1951
7.	Dhanvir Dutt	D-I/995	09.01.1952
8.	Ashok Kumar	D-I/671	22.01.1952

2. The appointment of the above mentioned 8 Inspectors into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007—Jagdish Chand Versus Union of India and Another and CWP No. 11356-62/2006—J. K. Jain & Others Versus Union of India & Others in the Hon'ble High Court of Delhi.



3. However, before effecting the said order, the Delhi Police may be requested to ensure that the aforesaid Inspectors continue to remain free from vigilance angle.

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi, the 22nd January 2009

No. I-18012/5/2006-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of Haryana in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each:—

Sl. No.	Names of the Officers	Date of confirmation in the IPS
	S/Shri	
1.	Subhash Yadav	14.12.2001
2.	Hardeep Singh Doon	01.11.2003
3.	Rajinder Kumar	01.11.2003

O. S. ASHOK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 22nd January 2009

No. A-32013/5/2008-Ad.I(G)—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of the year 2005 for the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Services (CSS) vide Department of Personnel and Training's O. M. No. 4/4/2008-CS.I(D) dated 7th January, 2009, the President is pleased to appoint the following officers/ex-officers of Department of Personnel and Training to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from 01.07.2005 and until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer
1.	Sh. Mohinder Kumar, Deputy Secretary
2.	Sh. S. Jainendra Kumar, Deputy Secretary
3.	Sh. Ranbir Singh, Deputy Secretary (Retd. on 30.09.08)

HARISH CHANDER, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 1st December 2008

No. 88 (F. No. A-38012/2/2008-Ad.I)—Dr. Chitranjan, an officer of the Indian Economic Service, posted as Senior Adviser in the Department of Revenue, retired from Government Service on 30th November 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 2nd December 2008

No. 89 (F. No. A-19013/24/2005-Ad.I)—In continuation of this Department's Notification No. 131 dated 25.11.2005, the tenure of deputation of Shri Murari Lal Meena, an officer of Indian Revenue Service (C&CE) as Senior Technical Officer in the Cental Economic Intelligence Bureau, Department of Revenue is extended for a further period of one year w.e.f. 17.10.08 (FN) to 16.10.2009 (AN).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 3rd December 2008

No. 90 (F. No. A-19013/22/2008-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Jaiswal, IRS (IT : 01) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 27.11.08 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 91 (F. No. A-19013/23/2008-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Vizay Babu Basanta, IRS (IT : 01) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 27.11.08 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 92 (F. No. A-19013/24/2008-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Manish Sareen, IRS (IT : 01) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 27.11.08 (AN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 93 (F. No. A-38013/17/2008-Ad.I)—Shri Prem Kumar Chhabra, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue, retired from Government Service on 30th November 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 8th December 2008

No. 94 (F. No. A-19011/23/2008-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri P. Nagarajan Asari, Indian Economic Service, as Senior Adviser to the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue, in the revised Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400—67,000/- with the Grade Pay Rs. 12,000/- with effect from 1st December, 2008 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 15th December 2008

No. 95 (F. No. A-19013/07/2008-Ad.I)—In supersession of this Department's Notification No. 15 of 2008, President is pleased to appoint Shri P. S. Choudhary, IRS (IT), as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 08.09.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier. The earlier Notification No. 15/2008 issued by this Department is hereby withdrawn and cancelled.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 16th December 2008

No. 96 (F. No. 50/127/2008-Ad.I)—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2003 against seniority quota, the President of India is pleased to appoint the following Section Officers, presently working as Section Officer (on ad-hoc basis) in the Department of Revenue and permanent Assistant of Finance Cadre of Central Secretariat Service, as Section Officer on Regular basis in the Department of Revenue with effect from the dates shown against their names:—

Sl. No.	Name	SL. year in Asstt. Grade	Date of appointment as Section Officer on regular basis	Remarks
1	2	3	4	5
	S/Shri/Ms.			
1.	Sanjay	1989	10.09.2008	
2.	Ajay Kumar Singh	1989	10.09.2008	
3.	Padmanav Behera	1989	10.09.2008	
4.	S. P. Tiwari	1989	10.09.2008	
5.	Ram Prasad	1989	10.09.2008	
6.	Jai Siongh	1989	10.09.2008	
7.	A. K. Gharai	1989	10.09.2008	
8.	Vivekanand	1989	10.09.2008	
9.	R. M. S. Ruhil	1989	10.09.2008	
10.	Sube Singh	1989	10.09.2008	
11.	R. P. Tyagi	1989	10.09.2008	
12.	D. S. Sharma	1989	10.09.2008	
13.	Subodh Kumar Jain	1989	15.09.2008	
14.	J. C. Sharma	1990		Retired on 31.01.2008
15.	P. K. Chhabra	1990	10.09.2008	
16.	Anu Gill	1990	21.10.2008	
17.	Radha Krishan	1990	10.09.2008	
18.	Rajeev Kumar	1990	10.09.2008	
19.	Awinash Chandra	1990	10.09.2008	

1	2	3	4	5
20.	P. K. Tyagi	1990	10.09.2008	
21.	Manas Mondal	1990	10.09.2008	
22.	S. K. Singh	1990	08.10.2008	
23.	K. T. Lepcha	1990	10.09.2008	
24.	A. K. Sharma	1987		Retired on 30.09.2007
25.	Somvir Singh	1990	29.10.2008	

2. Approved regular service in the Section Officer Grade of abovementioned 25 Officers will be counted from 01.07.2003 as per CSS Rules.

3. Above appointments shall be subject to outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2008 & MA No. 1171/2007 filed by Shru Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 29th December 2008

No. 97 (F. No. A-19011/24/2008-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri G. Muthuramakrishnan, Indian Revenue Service (Income Tax : 72035), as Income Tax Ombudsman at Chennai in the HAG + Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- for a period of 2 years with effect from 15.12.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 26th December 2008

#### INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 61 of 2008 (F. No. A-38012/41/2008-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri M. N. Mhatre, Assistant Commissioner of Central Excise, Indore with effect from 01.01.2009 (FN) under Rule 48 (1) of the CCS (Pension) Rules, 1972.

R. SANEHWAL, Dy. Secy.

New Delhi, the 26th September 2008

#### CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

#### INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 46 of 2008 (F. No. A-38012/33/2008-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri Anoop Swarup (IRS : C&CE : 1985), Commissioner of Customs (Prev.), Jaipur, from the Government Service with effect from 30.09.2008 (AN), under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972.

ASHOK CHAKRABARTI, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th January 2009

No. 1 of 2009 (F. No. A-38012/40/2008-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice for voluntary retirement of Shri Uday Bhanu Singh, Deputy Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-II, from the Government Service with effect from 09.01.2009 (FN), under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEV, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 19th January 2009

No. A-12011/2/2009-Admn.II—Consequent upon their inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the years 2003, 2004 and 2005, circulated vide Department of Personnel & Training O. M. No. 4/1/2007-CS.I(D) dated 26.12.2008 and O. M. No. 4/4/2008-CS.I(D) dated 07.01.2009, the President is pleased to appoint the following officers of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July of their respective Select List year as mentioned against each, and until further orders:—

Sl. No.	Name	CSL No.	Select List Year	Date of approved service
	S/Shri			
1.	B. S. Rawat	2893	2003	01.07.2003
2.	Sagar Mehra	3320	2005	01.07.2005

2. The inter-se seniority of abovementioned officers in Selection Grade of CSS will follow the serial order given in their respective Select List, irrespective of their actual date of appointment to that Grade.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 6th January 2009

No. 6/4/2008-FB-II—The President is pleased to designate Shri Pulok Chatterji as Government of India's Resident Representative with the rank of Ambassador, during his tenure as Executive Director for India, Bangladesh, Sri Lanka and Bhutan in the World Bank, at the Bank's Headquarters at Washington D. C. in the United States of America.

ALOK SHEEL, Jt. Secy.

New Delhi, the 20th January 2009

No. A-19011/1/2009-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Surendrakumar Bagde, IAS (MH : 3), as

Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 19th January 2009 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

S. K. VERMA, Director

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 23rd January 2009

No. A-32013/1/2009-Estt.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the years 2004 and 2005 for appointment to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, the President is pleased to appoint the following Officers to the post of Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) in the Department of Financial Services, Ministry of Finance on regular basis with effect from the dates shown against their names:—

Name & Designation	Effective Date
(i) Sh. M. K. Malhotra, Deputy Secretary (SL 2004)	01.07.2004
(ii) Sh. Sanjeev Kumar Jindal, Deputy Secretary (SL 2005)	01.07.2005

BAL RAM, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 23rd January 2009

No. 9/1/2009-Admn.—Shri Rahul Khullar, IAS (UT : 75), has assumed charge of the post of Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Disinvestment) with effect from the afternoon of 19th January, 2009.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 15th January 2009

No. 11(14)/2005-Estt.—In pursuance of DOP&T O.M. No. 7/5/2008-CS.I(S) dated the 31st December, 2008, the ad-hoc period in the Section Officers' Grade in respect of Shri Subhash Chander, Assistant is extended upto 30.06.2009 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following conditions:—

It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and

The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G VAIDHEESWARAN, Under Secy.

No. 11(14)/2005-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 7/5/2008-CS.I(S) dated the 31st December, 2008, the ad-hoc period in the Section Officers' Grade in respect of Shri S. P. Tyagi, Assistant is extended upto 30.06.2009 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following conditions:—

It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and

The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G VAIDHEESWARAN, Under Secy.

No. 11(14)/2005-Estt.—In pursuance of DoP&T O.M. No. 7/5/2008-CS.I(S) dated the 31st December, 2008, the ad-hoc period in the Section Officers' Grade in respect of Ms. Anuradha Sharma, Assistant is extended upto 30.06.2009 or till regular Section Officers are made available through normal channels of recruitment, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following conditions:—

It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and

The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G VAIDHEESWARAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 14th January 2009

No. 4/14/2005-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Stenographers Grade "A&B" (Merged) of CSSS against seniority quota for the year 2005 and allocation to the Ministry of Mines vide Department of Personnel and Training's O. M. No. 5/12/2007-CS.II dated 5th November, 2008, the President is pleased to appoint Shri A. K. Jain, Stenographer Grade "C" of CSSS borne on the cadre of Ministry of Mines as Stenographers Grade "A&B" (Merged) of CSSS, Ministry of Mines w.e.f. 07.01.2009.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

#### MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 14th January 2009

No. 14(7)/99-KVI—The President is pleased to appoint Dr. T. Karunakaran, to the post of Director, Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI), Maganwadi, Wardha, Maharashtra, a National Institute under the administrative control of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, New Delhi, in pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 13/3/2008-EO(SM-II) dated 10 July, 2008, in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- {Revised Pay Scale as per Sixth Central Pay Commission Recommendations accepted by Government: Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- Grade Pay (PB-4)} with effect from the date of assumption of the charge of the post of Director, MGIRI, Wardha, i.e. 15.07.2008 till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is earlier.

M. K. MISHRA, Under Secy.

New Delhi, the 16th January 2009

No. A-18011/45/2003-Estt.—The President is pleased to extend the tenure of deputation of Shri Ashutosh Mishra, ITS (89) as Director in the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector under the Ministry of Micro, Small and Medium enterprises with effect from 16.12.2008 to 31.03.2009 or until further orders, whichever is earlier.

P. S. VERMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 12th January 2009

No. A-12011/16/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sukhdev Thakur, a regular Assistant Director (Cooperation) and presently officiating as Deputy Director (Cooperation) on regular basis in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 22nd December, 2008 and until further orders.

S. L. VASHISHTA, Dy. Secy.

New Delhi, the 21st January 2009

No. A-32012/1/2002-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 7/5/2008-CS.I(S) dated 31.12.2008, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following regular Assistants of CSS Cadre of this Department as Section Officer in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- for the period upto 30.06.2009 or till the post is filled up on regular basis or till

further orders, whichever is earlier, subject to the terms and conditions of ad-hoc promotion intimated from time to time:—

Sl. No.	CSL No.	Name	Date from which officiating as SO
1.	383/91	Smt. Shailesh Kumari	12.10.2006
2.	202/92	Smt. Janak Bala Sehgal	31.10.2008 (AN)
3.	91/93	Shri S. R. Luthra	31.10.2008 (AN)
4.	41/94	Smt. R.K. Puri	22.12.2008

PREMA BHATT, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 12th January 2009

No. SM/01/03/2008—The President is pleased to place the following officers holding the post of Superintending Surveyor in Survey of India in the higher pay scale of Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay Rs. 8,700/- of Director in that Department with effect from the date(s) mentioned against their names until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Placement
1.	Shri R. A. Nirvikar (ST)	02.12.2008 (AN)
2.	Shri S. B. Sharma	02.12.2008

B. K. MANTHAN, Desk Officer

The 19th January 2009

No. SM/01/06/2008—The President is pleased to promote the following officers holding the post of Directors in the pay scale of Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay Rs. 8,700/- in Survey of India to the post of Additional Surveyor General in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP 10,000/- in the Senior Administrative Grade against Supernumerary post in that Department with effect from the date as indicated against each until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Appointment
1.	Major General S. Ravi	29.12.2008 (AN)
2.	Major General G. S. Chandela	29.12.2008
3.	Major General S. K. Pathak	29.12.2008
4.	Major General V. P. Srivastava	29.12.2008 (AN)

B. K. MANTHAN, Desk Officer

No. SM/01/06/2008—The President is pleased to promote the following officer holding the post of Director in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay Rs. 8,700/- in

Survey of India to the post of Additional Surveyor General in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP 10,000/- in the Senior Administrative Grade against Regular post in that Department with effect from the date as indicated against his name until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment
1.	Shri P. Nagendra Prasad	29.12.2008

B. K. MANTHAN, Desk Officer

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 26th December 2008

No. A-19011/22/2008.IFS.I—The President is pleased to appoint Shri A. K. Wahal, an officer belonging to 1978 Batch of Indian Forest Service, AGMUT Cadre, to the post of Professor, Additional Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. the afternoon of 31st October, 2008 for a period upto March, 2011 or till superannuation or until further orders, whichever is earlier.

KAMAL KISHORE, Under Secy.

New Delhi-110003, the 21st January 2009

No. 2-64/2001-FE—The President is pleased to appoint Shri Nirmal Ram, Scientist 'D' on promotion, to the post of Scientist 'E' in the scale of pay of Rs. 14,300—18,300/-, under Flexible Complementing Scheme, in ICFRE, Dehradun, w.e.f. 01.07.2008, till further orders.

2. The lower post of Scientist 'D', in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/-, vacated by Shri Nirmal Ram on his promotion, shall stand abolished from the date of his promotion to the post of Scientist 'E'.

MALTI RAWAT, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th January 2009

No. A-12025/16/2006-CHS-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. V. Rajshekhar to the post of Specialist Grade-II (Ophthalmology) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation w.e.f. the forenoon of 12th September, 2007 or until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 20th January 2009

No. A-12025/28/2007-CHS-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Nirupma Panikar Khan to the post of Specialist Grade-II (Pathology) in the Non-Teaching

Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation w.e.f. the forenoon of 14th December, 2007 until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

No. A-12025/19/2007-CHS-IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Srujana Mohanty to the post of Specialist Grade-II (Microbiology) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation w.e.f. the forenoon of 26th September, 2007 until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110108, the 22nd December 2008

No. A-38011/1/2008-CHS-I—Consequent upon their retirement Voluntarily/on attaining the age of superannuation the following doctors of Regularised Cadre/GDMO Sub-Cadre of Central Health Service holding the post of CMO (NFSG) under Central Govt. Health Scheme, Delhi retired from Government Service on the dates indicated below against their names:—

Sl. No.	Name of Doctors	Date of retirement	Cadre
1.	Dr. Muneendra Gupta	23.08.02007 (AN)	GDMO
2.	Dr. S. Upadhyaya	31.03.2008	GDMO
3.	Dr. J. K. Handa	31.01.2008	Regularized
4.	Dr. (Mrs.) Sucheta Malhotra	31.07.2008	Regularized

MAYA PRAKASH, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the, 7th January 2009

No. A-12025/2/2005-DFQC—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. N. Murugesan, Technical Officer, Central Drugs Laboratory, Kolkata presently working as In-charge Director, Central Drugs Testing Laboratory, Chennai to the post of Senior Scientific Officer Grade-II (Group 'A' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) plus admissible allowances in the said Central Drugs Testing Laboratory, Chennai on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 24th December, 2008 or until further orders, whichever is earlier.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th January 2009

No. A-32014/1/2007/E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. 7/16/2007-CS.I(S) dated 27.02.2007, the President is pleased to appoint following Assistants of CSS of the cadre of the Ministry of Health & FW as Section Officer in Pay Band-2 with grade pay of Rs. 4,800/- on adhoc basis w.e.f. the date shown against each and upto 31.12.2008 or till the Select List persons are available, whichever is earlier:—

1. Sh. Ranjit Kumar Singh (Select List-1994)—w.e.f. 04.12.08 (FN).
2. Sh. Dharam Pal Arora (Select List-1994)—w.e.f. 30.12.08 (FN).

2. This subject to the condition that adhoc promotion ordered above is purely temporary and a stop gap arrangement and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade of CSS.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

#### (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 2nd January 2009

No. A-19012/14/2008-EA—The President is pleased to appoint Shri Virendra Singh, a Junior Time Scale (JTS) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Assistant Director, in the Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, in the pre-revised scale of Rs. 8,000-275-13,500/-, with effect from the forenoon of 5th September, 2008.

D. K. ROY, Under Secy.

New Delhi, the 14th January 2009

No. 23024/1/2009-E.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/4/2008-CS.I(D) dated 7th January 2009, the President is pleased to include the following Grade-I Officers (Under Secretary) of the Central Secretariat Service (CSS) in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year mentioned against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List Year
1.	Shri R. K. Gaba	2004
2.	Shri C. M. Sharma	2004
3.	Shri V. B. Dubey	2005

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING  
& FISHERIES

New Delhi, the 22nd January 2009

No. 2-1/2001-Fy. Admn—With the approval of the competent authority the 04 posts of Accountant in the pay scale of Rs. 5,000-150-8,000/- (Pre-revised) in Fishery Survey of India, Mumbai, a subordinate office under the administrative control of this Department have been re-designated as Senior Store Keeper in the pay scale of Rs. 5,000-150-8,000/- (Pre-revised). After re-designation of 04 posts of Accountant as Senior Store Keeper, the sanctioned strength of Senior Store Keeper will become 06 and that of Accountant will become 08.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 27th August 2008

No. A-22012/01/2007-Estt.-I—Consequent on her promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on adhoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2008-CS.I (Desk) dated 20.06.2008 and No. 5/5/2008-CS.I (Desk) dated 30.07.2008, the President is pleased to appoint Smt. Alice Tete (CSL No. SL/99) as Under Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Rural Development w.e.f. 21.08.2008 (FN).

2. The appointment as Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the conditions as contained in the Department of Personnel & Training's Order(s) cited above.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 15th September 2008

No. A-12022/7/2007-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Jagdish Singh, IFS (MT : 87) as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 09.09.2008 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 18th September 2008

No. A-12022/4/2008-Estt.-I—The President is pleased to appoint the following Section Officers on regular basis in the Ministry of Rural Development in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) with effect from 12th August, 2008, on the basis on inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade against Seniority Quota for the year 2003:—

1. Shri Mohan Singh.
2. Shri K. D. Pandey.

3. Shri Surender Kumar.
4. Shri A. N. Misra.
5. Shri R. R. Ranakoti.
6. Smt. Chand Bhatia.
7. Shri B. K. Bahuguna.
8. Shri B. B. Sethi.
9. Shri Ajit Kumar.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

No. A-12022/4/2008-Estt.-I—The President is pleased to appoint the following Section Officers on regular basis in the Ministry of Rural Development in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) with effect from 12th August, 2008, on the basis of inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade against Seniority Quota for the year 2005:—

1. Shri R. P. Singh.
2. Shri R. S. Kutleria.
3. Shri Charan Singh.
4. Shri C. P. Dwivedi.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 16th October 2008

No. A-22012/01/2007-Estt.-I—Consequent on his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2008-CS.I(U) dated 11th September, 2008, the President is pleased to appoint Shri Parsa Ram (CSL No. 6292) as Under Secretary on ad-hoc basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/- in the Ministry of Rural Development with effect from the afternoon of 30th September, 2008.

2. The appointment as Under Secretary on ad-hoc basis is subject to the conditions as contained in the Department of Personnel & Training's Order cited above.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 27th October 2008

No. A-19011/2/2008-Estt.I—The President is pleased to appoint Dr. Arvind Mayaram, IAS (RJ : 78) as Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 20th October 2008.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 25th November 2008

No. A-12026/01/2007-Estt.I—In pursuance of Ministry of Home Affairs (Department of Official Languages) O. M. No. 5/6/2007-O.L.(Service) dated 17th September, 2008 and with the approval of the competent authority in the Ministry of Rural Development, Smt. Manju Saxena, Editor (Bhagirath Hindi) in the Central Water Commission, Ministry of Water Resources is appointed as Joint Director (OL) in the Ministry of Rural Development on deputation basis for a period of 3 years with effect from the forenoon of 12th November, 2008.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 14th January 2009

No. A-12022/3/2008-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Shyam, IES (99) as Deputy Secretary in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the afternoon of 31.12.2008 for a period of 4 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 19th January 2009

No. 8-40/1999/D(IV)(L)/L-II(pt)—The President is pleased to appoint Shri Devi Prasada Sastry Garimella to the post of Reader-cum-Research Officer (Linguistics) in the pre-revised pay scale of Rs. 12,000-420-18,300/- in Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysore with effect from 8th September 2008, forenoon.

K. P. J. GERALD  
Under Secy.

#### MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th December 2008

No. 4-15/2004-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri I. S. Balghour, Under Secretary in the Ministry of Women and Child Development stand retired from Government service with effect from 31.12.2008 (afternoon).

SHAKUNTLA JAIN, Under Secy.

No. 4-44/87-Admn.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri S. K. Gupta, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development stand retired from Government service with effect from 31.12.2008 (afternoon).

SHAKUNTLA JAIN, Under Secy.

No. 4-44/87-Admn.—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt. Bimla Devi, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development stand retired from Government service with effect from 31.12.2008 (afternoon).

SHAKUNTLA JAIN, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 31st December 2008

No. 1-23/2003-SPG—Ms. V. T. Sheth (IPoS-1975), Chief Postmaster General, Gujarat Circle, Ahmedabad is retiring on superannuation from Government service w.e.f. 31.12.2008 (AN).

SMRITI SHARAN, Director (Staff)

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 15th January 2009

No. E(O)III/2008/RN/38—Consequent upon his permanent absorption in Government of Andhra Pradesh, Shri N. V. S. Reddy, SAG/IRAS, has resigned from Railway service with effect from 17.12.2008.

K. B. L. MITTAL, Secy.  
Railway Board

The 20th January 2009

No. ERB-I/2008/2/56—The President is pleased to appoint Shri Praveen Kumar, IRSME, General Manager/South Western Railway as Member (Mechanical)/Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India, in the Grade Rs. 80,000/- (fixed) with effect from forenoon of 01.01.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.12.2008.

- i) Sh. Dharendra Kumar — Director (Printing)
- ii) Sh. Rajinder Sharma — Section Officer
- iii) Sh. Jagdish Chander — Section Officer
- iv) Sh. Subhash Chander — Section Officer

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri R. K. Rao, Member Mechanical, Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired



from service with effect from the afternoon of 31.12.2008 on attaining the age of superannuation.

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

The 22nd January 2009

No. ERB-I/2008/2/48—The President is pleased to appoint Shri A. K. Tiwari, HAG/IRSME, CME/CLW as Additional Member (Planning), Railway Board on promotion to the Grade of Rs. 24,050—26,000/- (pre-revised) with effect from forenoon of 02.12.2008.

K. B. L. MITTAL, Secy.  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 20th January 2009

No. A-12011/1/2007-IWT—Shri Vijay Chhibber, Additional Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways is appointed as Part-time Member in the Inland Waterways Authority of India vice Shri C. Balakrishnan, AS&FA.

A. C. OJHA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 13th January 2009

No A-12023/2/2004-E-I—The President is pleased to appoint Shri N. Balakrishnan as Additional Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister (Shipping, Road Transport & Highways) on co-terminus basis, in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- (pre-revised) wef. 01.05.2008 (FN) till further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever event occurs at the earliest.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

The 15th January 2009

No. A-32014/1/2005-E.1(B)—Consequent on inclusion of his name in the Select List of 2005 of Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS vide Ministry of Personnel, Public

Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/12/2007-CS.II dated 05.11.2008, the President is pleased to appoint Smt. Santosh Dhawan, Steno Grade 'C' of CSSS in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, as Private Secretary on regular basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 01.01.2009 (FN).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWRR

New Delhi, the 21st January, 2009

No. 04/09. F. No. 2/9/2007-Adm.II—In terms of the guidelines provided in O. M. No. 31/20/2008-EO(MM-I) dated 05.09.2008, Department of Personnel and Training has conveyed their approval for the extension of Shri Kapil Mohan, IAS (KN : 1990)'s Central deputation period upto 20.06.2011 vide their O. M. No. 20/2/2007-EO(MM01) dated 16.01.2009. Accordingly, the appointment of Shri Mohan as Director in the Ministry of Power as per notification No. 23/07 (F. No. 2/9/2007-Adm.II) dated 10.09.2007 is extended upto 20.06.2011.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 13th January 2009

No. A-12025/5/2006-IIS—On the basis of the result of the Civil Services Examination 2007, the President is pleased to appoint Shri Milind Dharmrao Ramteke in the Junior Grade of Indian Information Service, Group 'A' in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) with effect from 01.01.2009 (FN).

2. Shri Milind Dharmrao Ramteke will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group 'A'.

3. He has been posted in the post of Junior Grade of Indian Information Services Group 'A' as Assistant Director (Media & Communication) in the Press Information Bureau, New Delhi until further orders.

AMRIT LAL, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009..